

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के अंतर्गत कम्प्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति द्वारा आयोजित त्रि-दिवसीय “Be Smart With a Smart Phone- Workshop “बढ़ते क़दम” दिनांक १६-१७-१८ जनवरी, २०२१ के प्रथम दिवस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापतिजी माननीय श्रीमान श्यामजी सोनी, प्रमुख अतिथि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती आशाजी माहेश्वरी, विशेष अतिथि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की महामंत्राणी श्रीमती मंजुजी बांगड, समस्त पदाधिकारीगण, सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षायें, सभी राष्ट्रीय समिति प्रभारी, सभी प्रदेश अध्यक्ष व सचिव, समिति प्रदेश संयोजिकाएँ, ज़िला सह संयोजिकाएँ, स्थानीय संगठन समिति सदस्यायें एवं सभी प्रदेशों से पधारी बहनों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती उर्मिलाजी कलंत्री ने सभी का स्वागत किया और समिति के कार्यों की एक झलक प्रस्तुत की। सभापतिजी ने समिति के कार्यों की सराहना के साथ बहुमूल्य मार्गदर्शन भी दिया। आपने सम्पर्क ऐप की महत्त्वता को भी सविस्तार बताया। राष्ट्रीय अध्यक्षा आशाजी ने समिति द्वारा प्रदेश संयोजिकाओं को साथ लेकर उनके द्वारा कार्यशालायें लेने पर बधाई देते हुए अपनी शुभकामनायें प्रकट की। राष्ट्रीय महामंत्राणी मंजुजी बांगड ने सभी प्रदेश संयोजिकाओं एवं आंचलिक सह प्रभारियों द्वारा दिये प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि ये प्रशिक्षक किसी प्रोफ़ेसनल से कम नहीं है। कार्यशाला में हमारी टीम के प्रशिक्षकों ने महा सभा के “सम्पर्क ऐप” एवं “ज़ूम ऐप” के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से सभी को बताया। दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओं का समाधान भी किया गया। महासभा की टेक्निकल टीम के श्री दिनेशजी राठी ने सम्पर्क ऐप से सम्बन्धित प्रश्नों का निवारण किया। ५७५ बहनें जुड़कर इस तकनीकी ज्ञानशाला से लाभान्वित हुईं। हम हमारे सभी अतिथियों के अंतर्मन से शुक्रगुज़ार हैं जिनकी उपस्थिति ने बढ़ते क़दम कार्यक्रम की शोभा में अभिवृद्धि कर दी।



कार्यक्रम के द्वितीय दिवस की अतिथि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती ज्योतिजी राठी ने समिति की कार्यशाला में सम्मिलित किये सभी विषयों के बारे में बताते हुए कहा कि ये सारे विषय के बारे में सभी को सीखना आज के समय अति आवश्यक है। द्वितीय दिवस में हमारे प्रशिक्षकों ने “PPT प्रेज़ेंटेशन” एवं “रिपोर्ट प्रेज़ेंटेशन फ़ॉर्मैट में” पर कार्यशाला बहुत ही अच्छी तरह से ली। सभी बहनों के प्रश्नों के उत्तर भी देकर उनकी शंका का समाधान किया। राष्ट्रीय भूतपूर्व अध्यक्षा श्रीमती गीताजी मूँदड़ा एवं श्रीमती सुशीलाजी काबरा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कार्यशाला की समीक्षा की।

कार्यशाला के तृतीय दिवस में अतिथिगणों के रूप में पधारी मुख्य अतिथि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशाजी माहेश्वरी, विशिष्ट अतिथि हमारी राष्ट्रीय महामंत्राणी श्रीमती मंजुजी बांगड एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमती शैलाजी कलंत्री थी। आप सभी की शुभकामनायें एवं आशीर्वाद प्राप्त हुए। तृतीय दिवस के विषय थे “Youtube चैनल कैसे बनायें व कैसे चलायें” “ Telegram app पर ABMMS का Vidhya E-Learning”, “Photo collage audio & video के साथ बनाना”, “इन्वितेशन कार्ड बनाना” एवं “excel sheet में डेटा कैसे भरना” विषयों पर बहुत ही आसान तरीके से सिखाया और सभी के प्रश्नों का उचित उत्तर भी दिया। राष्ट्रीय महामंत्राणी मंजुजी बांगड ने मन की बात सभी से साझा की और राष्ट्रीय अध्यक्ष आशाजी माहेश्वरी ने कार्यशाला पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। समिति प्रमुख श्रीमती ममताजी मोदानी ने अपना मनोगत प्रस्तुत किया। समिति आंचलिक सह प्रभारी श्रीमती भाग्यश्रीजी चांडक, श्रीमती शोभाजी लखोटिया, श्रीमती विनीताजी डाड, श्रीमती सुशीलाजी माहेश्वरी,

श्रीमती अंकिताजी राठी, श्रीमती करुणाजी अट्टल एवं समिति की सभी प्रदेश संयोजिकाओं के अथक प्रयासों का ही परिणाम था त्रि-दिवसीय कार्यशाला “बढ़ते क़दम”

धन्यवाद...

बढ़ते कदम कार्यशाला के शिक्षक









ABMMS Computer samiti



बढ़ते कदम कार्यशाला





बढ़ते कदम कार्यशाला
प्रथम दिन की झलकियां